

## प्रेस विज्ञप्ति

### के0जी0एम0यू0 के डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों ने जनेश्वर मिश्र पार्क में चलाया स्वच्छता अभियान, किया श्रमदान

आज दिनांक 02 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के पर्यावरण विभाग ने लखनऊ के गोमतीनगर में स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क में स्वच्छता के प्रति आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से स्वच्छता अभियान चलाया।

इस अवसर पर के0जी0एम0यू0 के विभिन्न विभाग के डॉक्टर्स एवं पर्यावरण विभाग के कर्मचारियों ने शेल्टर नंबर- 14 व उसके आसपास के पूरे क्षेत्र में श्रमदान कर लोगों के स्वच्छता के बारे में बताया। वहीं के0जी0एम0यू0 के पर्यावरण विभाग ने स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया।

इसके साथ ही पर्यावरण विभाग ने पुरानी पानी की टंकियों का इस्तेमाल करके करीब दर्जन भर से ज्यादा कचरा पेटियों (डस्टबिन) का निर्माण किया। इन्हें पार्क में आमजन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग स्थानों में रखा गया है।

इस अवसर पर चिकित्सा विश्वविद्यालय के मा0 कुलपति प्रोफेसर एम0एल0बी0भट्ट ने श्रमदान कर लोगों को स्वच्छता के बारे में बताते हुए कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी मानते थे कि जो राष्ट्र स्वच्छ नहीं है वह राष्ट्र कभी विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जिससे प्रेरणा लेकर सभी आमजन को स्वच्छता के प्रति अपना योगदान देना चाहिए।

इस अवसर पर पर्यावरण विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कीर्ति ने कहा कि अपने आसपास से क्षेत्र में स्वच्छता रखने से कई प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करना प्रत्येक नागरिक का धर्म है। इस श्रमदान में मुख्य रूप से के0जी0एम0यू0 के मीडिया सेल के सह-मीडिया प्रभारी डॉक्टर सुधीर सिंह, डॉक्टर अनुपम वाखलू, डॉक्टर हिमांशु, डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर एस0एन0जायसवाल, डॉ, बालेन्द्र प्रताप समेत पर्यावरण विभाग के कई अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।